

अध्याय -1 | वित्तीय विवरण - 1

QUIZ-01

1. कौन-सा विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को किसी विशेष तिथि पर दर्शाता है?

- A. व्यापार खाता
- B. लाभ और हानि खाता
- C. बैलेंस शीट
- D. ट्रायल बैलेंस (C)

व्याख्या: बैलेंस शीट व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाती है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति ज्ञात होती है।

2. आय सृजन की क्षमता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का व्यय किया जाता है?

- A. पूंजीगत व्यय
- B. राजस्व व्यय
- C. स्थगित राजस्व व्यय
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं (B)

व्याख्या - राजस्व व्यय नियमित व्यावसायिक कार्यों को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

3. निम्न में से कौन-सी पूंजी प्राप्ति है?

- A. किराया प्राप्त
- B. वस्तुओं की बिक्री
- C. निवेश पर ब्याज
- D. बैंक से ऋण (D)

व्याख्या बैंक से ऋण एक देनदारी उत्पन्न करता है और इसीलिए यह पूंजी प्राप्ति है।

4. सकल लाभ निकालने का सही सूत्र क्या है?

- A. सकल लाभ = बिक्री - प्रत्यक्ष व्यय
- B. सकल लाभ = बिक्री - खरीद
- C. सकल लाभ = बिक्री - (खरीद + प्रत्यक्ष व्यय)
- D. सकल लाभ = शुद्ध लाभ - अप्रत्यक्ष व्यय (C)

व्याख्या - सकल लाभ = बिक्री - (खरीद + प्रत्यक्ष व्यय) द्वारा प्राप्त होता है।

5. निम्न में से कौन-सा गैर-नकद व्यय है?

- A. किराया
- B. मजदूरी
- C. मूल्यह्रास
- D. वेतन (C)

व्याख्या: मूल्यह्रास एक लेखांकन प्रविष्टि है जिसमें नकद बहिर्गमन नहीं होता।

6. ट्रेडिंग खाता किसके निर्धारण के लिए तैयार किया जाता है?

- A. शुद्ध लाभ
- B. कुल बिक्री
- C. सकल लाभ या हानि
- D. कुल व्यय (C)

व्याख्या: ट्रेडिंग खाता व्यवसाय के मुख्य कार्यों से सकल लाभ/हानि निर्धारित करता है।

7. ट्रेडिंग खाते में स्थानांतरित कर बंद किया जाने वाला खाता कौन-सा है?

- A. वेतन
- B. कमीशन प्राप्त
- C. प्रारंभिक स्टॉक
- D. किराया (C)

व्याख्या: प्रारंभिक स्टॉक एक प्रत्यक्ष व्यय है जिसे ट्रेडिंग खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

8. स्थगित राजस्व व्यय से लाभ किस अवधि के लिए प्राप्त होता है?

- A. एक माह
- B. एक लेखांकन वर्ष
- C. एक से अधिक लेखांकन वर्ष
- D. कोई लाभ नहीं होता (C)

व्याख्या - स्थगित राजस्व व्यय वह व्यय है जो कई वर्षों तक लाभ देता है।

9. लाभ और हानि खाते की क्रेडिट साइड में कौन-सी वस्तु दिखाई जाती है?

- A. वेतन
- B. किराया
- C. बिक्री
- D. कमीशन प्राप्त (D)

व्याख्या: कमीशन प्राप्त जैसे आय लाभ और हानि खाते की क्रेडिट साइड में दर्शाई जाती है।

10. बैलेंस शीट में परिसंपत्तियाँ किस पक्ष में दिखाई जाती हैं?

- A. बाएं
- B. दाएं
- C. मध्य में
- D. नीचे (B)

Explanation: पारंपरिक क्षैतिज प्रारूप में परिसंपत्तियाँ दाएं पक्ष में दिखाई जाती हैं।